

भारत सरकार
पर्यटन मंत्रालय
राज्य सभा

लिखित प्रश्न सं. 2393

मंगलवार, 16 मार्च, 2021/25 फाल्गुन, 1942 (शक)
को दिया जाने वाला उत्तर

कोविड-19 महामारी के कारण पर्यटन क्षेत्र में रोजगार समाप्त होना

2393. श्री प्रसन्न आचार्य:

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) कोविड-19 महामारी की स्थिति के कारण देश में पर्यटन क्षेत्र में कितने लोग बेरोजगार हो गए हैं और बेरोजगार लोगों के लिए क्या राहत पैकेज है;
- (ख) कोरोना वायरस के प्रचार के कारण इस क्षेत्र में कितनी वित्तीय हानि हुई है; और
- (ग) क्या सरकार ने इस क्षेत्र के पुनरुद्धार के लिए कोई कार्य योजना तैयार की है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यटन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री प्रहलाद सिंह पटेल)

(क) से (ग): पर्यटन मंत्रालय ने “भारत तथा कोरोना महामारी: पर्यटन से जुड़े परिवारों के आर्थिक नुकसान और बहाली संबंधी नीतियां” विषय पर अध्ययन करने के लिए राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद (एनसीएईआर) को जनवरी, 2021 में नियुक्त किया है। इस अध्ययन के उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

- समग्र अर्थव्यवस्था और विशेष रूप से पर्यटन से जुड़े घरेलू क्षेत्रों जिन्हें औपचारिक तथा अनौपचारिक जैसे अनेक वर्गों में आगे वर्गीकृत किया जा सकता है, की आय पर पर्यटन कार्यकलापों के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव का क्षेत्र-वार (अथवा उद्योग-वार) आकलन करना।
- पर्यटन क्षेत्र पर कोरोना वायरस महामारी के प्रभाव के कारण अर्थव्यवस्था तथा घरेलू क्षेत्रों की आय और रोजगार के क्षेत्र-वार तथा समग्र नुकसान का आकलन करना।
- घरेलू पर्यटन कार्यकलापों और पर्यटन से जुड़े अन्य क्षेत्रों को क्रमिक रूप से खोले जाने के प्रभाव का आकलन करना।
- अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन को चरणबद्ध रूप से खोले जाने के संभावित प्रभाव का आकलन करना।
- सामान्य रूप से पर्यटन क्षेत्र और विशेष रूप से पर्यटन संबंधी कार्यकलापों से जुड़े परिवारों को राहत प्रदान करने के लिए समुचित नीतिगत उपाय प्रस्तावित करना।
